

## PACKAGE OF PRACTICES FOR SWEET POTATO

<b>Sustainability</b>	: Fitted well in low fertility
<b>Recommended for</b>	: State of Bihar
<b>Planting Season</b>	: As autumn crop- September planting As summer crop-February planting (with irrigation).
<b>Duration</b>	: 110-120 days
<b>Land Preparation</b>	: Sandy-Loam soil with proper drainage, Deep ploughing followed by levelling and application of 10 t FYM/ha.
<b>Vine treatment</b>	: Treatment of vine cuttings with chlorpyriphos (20EC) in 0.02% for 10 minutes. Top vine portion has been found to be superior planting material with a length of 25-30 cm.
<b>Spacing</b>	: 30 x 30cm
<b>Fertilizer recommendation</b>	: 60 kg/ha each of Nitrogen and Potash and 40kg/ha of Phosphorus. (Add full dose of phosphorus and half dose of nitrogen and Potash as basal dose at the time of planting)
<b>Irrigation and inter-culturing</b>	: Need based, two irrigation in autumn and 4-6 irrigations in summer are effective for higher yields in Bihar. 1 <sup>st</sup> intercultural at 30 days after planting along with removal of weeds and turning of vines. Application of second dose of nitrogen and potash along with earthling up is recommended after 60-65 days of planting.
<b>Plant Protection</b>	: RS-7 was moderately resistant to Sweet potato weevil ( <i>Cylas formicarius</i> ). Use of healthy and weevil free planting materials are recommended to control the pest. Vine treatment and two sprays of Chlorpyriphos 0.02% (20 EC) at monthly intervals was effective against sweet Potato weevil incidence in Bihar. Use of Pheromone trap along with chemical practices effectively controls Sweet Potato Weevil.
<b>Harvesting</b>	: Time of harvest is found to be very important in sweet potato and in general a delay in harvest after 120 days increases infestation of sweet potato weevil.
<b>Crop rotation and cropping sequences</b>	: In Bihar, Sweet potato after <i>Kharif</i> maize is recommended due to proper tuberization. Maize ( <i>Kharif</i> ) – Sweet Potato (Autumn) –Moong (Summer) and Maize- Sweet potato - Onion.

## शकरकंद के उत्पादन की उन्नत तकनीक

### **भूमि का चयन तथा खेत की तैयारी**

शकरकंद की अच्छी उपज एवं सर्वोत्तम विकास के लिए उत्तम जल निकास युक्त, बलुई से लेकर हल्की दोमट मिट्टी उपयुक्त होती है। इसके कंद बहुत हल्की मिट्टी में पतले रह जाते हैं तथा बहुत भारी मिट्टी में जल जमाव तथा खुदाई आदि की समस्याओं के कारण इसकी खेती लाभप्रद नहीं हो पाता है। रोपाई के पूर्व यह आवश्यक है कि खेत की तैयारी अच्छी तरह की जाए। खेत की तैयारी के लिए प्रथम जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से और दो जुताई देषी हल से करें। प्रत्येक जुताई के बाद खेत में पट्टा चला दें जिससे मिट्टी हल्की एवं भूरभूरी हो जाए ताकि कन्दों के विकास में कोई बाधा न हो।

### **शकरकंद का प्रवर्धन**

रोपाई हेतु लत्तरों के उपरी भाग का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि ऐसे लत्तर के टुकड़ों में जड़ जल्द निकल आते हैं तथा फसल का बढ़वार शीघ्र प्रारम्भ हो जाता है। रोपाई हेतु लत्तर के टुकड़ों की लम्बाई 25 से 30 सेमी० रखें तथा यह ध्यान रखें कि प्रत्येक लत्तर में 5 से 6 गाँठें होनी चाहिए। रोपाई करते समय यह ध्यान रहे कि कम से कम लत्तर की तीन गाँठे मिट्टी के अन्दर रहें।

### **रोपाई की विधि**

शकरकंद की रोपाई मुख्यतः दो विधि (समतल तथा मेड़) द्वारा की जाती है। इन दोनों हीं विधियों में कतार से कतार तथा पौधों से पौधों की दूरी 30 सेमी० रखें। इतनी दूरी पर रोपाई करने पर लगभग एक लाख दस हजार पौधों की संख्या प्रति हेक्टर होती है। वैसे रोपाई हेतु 10–12 किवंटल लत्तर/हेक्टर जरूरत पड़ती है। रोपाई के पूर्व लत्तर के टुकड़ों को क्लोरपाईरिफास कीटनाशी के घोल (0.02%) से उपचारित करने के बाद लगायें ताकि लत्तर के अन्दर छिपे कीट या उसकी कोई अवस्थाएँ हो तो नष्ट हो जाए।

### **खाद एवं उर्वरक की मात्रा तथा प्रयोग की विधि**

शकरकंद की अच्छी उपज हेतु कम्पोस्ट या गोबर की सड़ी हुई खाद 10 टन के अलावे नेत्रजन 60 किंग्राम, फास्फोरस 40 किंग्राम तथा पोटाष 60 किंग्राम प्रति हेक्टर की दर से व्यवहार करने की अनुशंसा की गयी है। अनुशंसित नेत्रजनित खाद को दो बराबर भागों में बॉटकर देना चाहिए। नेत्रजनित उर्वरक का पहला भाग (30 किंग्राम/हेक्टर) बुआई के पहले तथा दूसरा भाग 60 दिन बुआई के बाद उपरिवेष्ण (टॉपड्रेसिंग) करें।

### **सिंचाई**

सितम्बर माह में रोपाई की गई फसल में साधारणतया सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती है। परन्तु लत्तरों की अच्छी तरह स्थापना हेतु मिट्टी में पर्याप्त नमी होनी चाहिए। अतः यदि शुरुआती अवस्था में वर्षा न हो एवं नमी की कमी हो तो एक–दो हल्की सिंचाई अवश्य करें। फरवरी माह में रोपाई की गयी फसल में 4–6 सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। प्रथम सिंचाई लत्तर रोपाई के तुरन्त बाद कर दें ताकि लत्तरों में जड़ों का समुचित विकास हो सके। उसके बाद आवश्यकतानुसार 15 से 20 दिनों के अन्तराल पर तथा मिट्टी में मौजूद नमी को ध्यान में रखते हुए सिंचाई करें।

### **निकाई—गुड़ाई**

रोपाई के 30 दिनों बाद प्रथम निकौनी करने की अनुशंसा किया गया है। यदि खेत में पुनः खर-पतवार उग आए तो आवश्यकतानुसार दूसरी निकौनी 60–65 दिनों बाद करें। इसी समय लत्तरों को मिट्टी की सतह से

एक बार उलट—फेर कर दें ताकि गॉठों से आनावस्थक जड़ों का जमाव न हो तथा लत्तरों का समुचित विकास हो सकें।

## शकरकंद के प्रमुख कीट

### 1. दीमक (ओडॉन्टोटर्मीस ओबेसस)

दीमक शकरकंद का प्रमुख कीट है, जो भूमि के अन्दर रहकर कन्दों को हानि पहुँचाते हैं। इस कीट का प्रकोप बिहार के सभी क्षेत्रों में खास कर असिंचित, तथा बलुआही भूमि में अधिक होता है। ये जमीन के अन्दर शकरकंद के कन्दों के सतह पर आक्रमण कर छिलका एवं गुद्दे भाग को खाते हुए टेढ़ी—मेढ़ी रेखाएँ बनाते हैं।

#### रोकथाम

- ◆ खेत में पूर्णतः सड़ी हुई गोबर की खाद या कम्पोस्ट का प्रयोग करें। कच्ची खाद डालने पर इसका प्रकोप और अधिक बढ़ जाता है।
- ◆ रोपाई के पूर्व नीम की खल्ली 2 टन/हेक्टेएक्टर की दर से व्यवहार करने पर इस कीट का प्रकोप कम होता है।
- ◆ अत्यधिक प्रकोप होने पर क्लोरोपारिफॉस (20ई0सी0) दवा का 2ली0 प्रति 800—1000 लीटर पानी में घोल कर पौधे पर रोपाई से 1 माह बाद 15 दिनों के अन्तराल पर दो—तीन छिड़काव करें।

### 2. शकरकंद का विभिन्न कीट (साइलस फॉर्मिकेरियस)

यह शकरकंद का मुख्य शत्रु कीट है जो कन्दों को खेतों तथा गोदामों में क्षति पहुँचाता है। इस कीट का प्रकोप भारतवर्ष के सभी क्षेत्रों में उगाई जाने वाली शकरकंद की फसल पर होता है।

इस कीट के व्यस्क एवं पिल्लू दोनों ही अवस्थायें शकरकंद के लिए हानिकरक हैं। इसके पिल्लू शकरकंद के लत्तर में छेद कर अंदर प्रवेश कर जाते हैं तथा भीतरी भाग को खाते हुए जमीन के नीचे कंद में प्रवेश कर जाते हैं। अकान्त लत्तर के तने अंदर से खोखली हो जाती है। कंदों पर आक्रमण कर गूदे भाग को खाते हैं। व्यस्क कीट पत्तियों तथा लत्तर को खाते हैं तथा उनमें छिद्र कर देते हैं। अकान्त कंदों पर काले—काले छिद्र नजर आते हैं। आक्रमण कन्द का बाजार भाव कम हो जाता है। यह कीट गोदाम में रखी हुई शकरकंद को भी क्षति पहुँचाता है। इस कीट से 70 प्रतिशत तक क्षति ऑकि गई है।

#### रोकथाम

स्वस्थ लत्तर का प्रयोग स्वस्थ लत्तर के उपरी भाग की रोपाई के लिए प्रयोग करें। लत्तर के निचले भाग को रोपण हेतु कदापि प्रयोग में न लायें।

**लत्तर उपचारित करना:** क्लोरोपारिफॉस (20ई0सी0) दवा का 0.02 प्रतिशत घोल तैयार कर रोपाई के पूर्व लत्तर को 10—15 मिनट तक घोल में डुबोकर रखने के बाद ही रोपाई करें। **फेरोमोनट्रैप का प्रयोग:** रोपाई के तुरंत बाद सेक्स फेरोमोनट्रैप प्रति 100वर्गमीटर की दर से प्रयोग करें ताकि नर कीटों की संख्या में कमी आती है तथा कीटों की संख्या पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

### कंदों की खुदाई, विपणन एवं भण्डारण

शकरकंद की खुदाई औसतन 110 से 120 दिनों के बाद कुदाल से करें। देर से खुदाई करने पर शकरकंद धुन कीट का ज्यादा आक्रमण होता है। खुदाई से पूर्व लत्तरों को काट कर आवस्थकतानुसार नर्सरी में लगा लें ताकि अगली फसल की रोपाई की जा सके। उसके बाद खुदाई करें। खुदाई के बाद कटे एवं छोटे कंदों की छँटनी कर अलग कर खाने के काम में लायें। कंदों से मिटटी साफ कर बाजार में भेजें ताकि अधिक आय मिल सके। कंदों के भण्डारण के लिए रोग रहित बड़े एवं स्वस्थ कंदों को उपयोग करें। भण्डारण बालू पर हवादार गृह में होनी चाहिए। भण्डारण में हानि से बचाव के लिए भण्डारण गृह का तापमान 20 से 25 सेन्टीग्रेड होनी चाहिए।

## PACKAGE OF PRACTICES FOR YAM BEAN

<b>Sustainability</b>	: Fitted well in low fertility
<b>Recommended for</b>	: State of Bihar
<b>Sowing Season</b>	: June-July planting- <b>For seed purpose</b> August- September planting- <b>For tuber purpose</b>
<b>Duration</b>	: 170-180 days for seed purpose 120–130 days for tuber purpose
<b>Land Preparation</b>	: Sandy-Loam soil with proper drainage, Deep ploughing followed by leveling and application of 10 t FYM/ha.
<b>Seed rate</b>	: 20-25 Kg/ha. Higher seed rate is required for tuber purpose (40-45 Kg/ha.)
<b>Spacing</b>	: 30-50 x 30cm
<b>Fertilizer recommendation</b>	: Application of 80 kg/ha of Nitrogen and Potash and 60 kg/ha Phosphorus is recommended for Bihar. (Add full dose of phosphorus and half dose of nitrogen and Potash as basal dose at the time of planting)
<b>Irrigation and inter-culturing</b>	: Need based, 2-3 irrigations in summer are effective for higher yields in Bihar. Inter-culturing at 30 and 60 days after planting along with removal of weeds. Application of second dose of nitrogen and potash is recommended after weeding at 60 days of planting.
<b>Plant Protection</b>	: RM-3 found moderately resistant to spotted pod borer ( <i>Maruca vitrata</i> ). Application of chemical Deltamethrin (0.002%) or Dimethoate (0.03%) is effective for controlling pod borer in yam bean.
<b>Harvesting</b>	: March- April: For seed purpose January-February: For tuber purpose (Before Saraswati Puja)
<b>Crop rotation and cropping sequences</b>	: Maize- Yambean- Moong is recommended for yam bean growing areas of Bihar.

## मिश्रीकंद के उत्पादन की उन्नत तकनीक

### **भूमि का चुनाव एवं खेत की तैयारी**

मिश्रीकंद की खेती के लिए हल्की दोमट या बलूई मिट्टी सबसे अधिक उपयुक्त है। खेत का चुनाव करते समय यह ध्यान रखें कि भूमि उँची हो तथा उसमें जल का जमाव न हो, क्योंकि जल जमाव से फसल पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। खेत की तैयारी के लिए प्रथम जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से और दो-तीन जुताई देखी हल से करें ताकि मिट्टी अच्छी तरह भुरभुरी हो जाए। खेत की तैयारी करते समय खरपतवारों एवं आवंछित पौधों को चुनकर खेत से अलग कर दें। खेत की तैयारी करते समय गोबर की सड़ी हुई खाद या कम्पोस्ट 15 टन प्रति हेक्टर की दर से डाल कर अच्छी तरह मिला दें।

### **बोआई का समय, दूरी एवं बीज दर**

इस फसल की बोआई सीधे बीजों से किया जाता है। सामान्यतः यह एक खरीफ मौसम में उगायी जाने वाली फसल है जिसकी बोआई जून-जुलाई में की जाती है। इस फसल की बोआई 15 जून से 15 सितम्बर तक किया जा सकता है तथा किसान अपने सुविधा एवं खुदाई को ध्यान में रखते हुए बोआई कर सकते हैं। फसल की बोआई बीजोत्पादन हेतु 15 जून से जुलाई तक पंक्ति से पंक्ति एवं पौधों से पौधों की दूरी 50 सेमी $\times$ 30 सेमी पर करें। उसके बाद 15 अगस्त से 15 सितम्बर तक कन्दोत्पादन हेतु फसल की बोआई 30 सेमी $\times$ 30 सेमी की दूरी पर रखें। बोआई के लिए समयानुसार बीज दर की मात्रा बढ़ती है। बीजोत्पादन हेतु 20 किलोग्राम तथा कन्दोत्पादन हेतु बोआई के लिए 40 से 45 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टर की दर से आवश्यक होती है। बीजोत्पादन के लिए फसल की बोआई जुलाई माह तक अवघ्य कर दें जिससे पौधे की वृद्धि सही एवं अच्छी उपज प्राप्त होती है।

### **खाद एवं उर्वरक की मात्रा तथा प्रयोग की विधि**

अनुसंधान के आधार पर इस फसल के लिए गोबर की सड़ी हुई खाद या कम्पोस्ट 15 टन, नेत्रजन 80 किग्राम, फास्फोरस 60 किग्राम तथा पोटाष 80 किग्राम प्रति हेक्टर की दर से व्यवहार करने की अनुषंसा की गयी है। पहली जुताई के समय कम्पोस्ट या गोबर की सड़ी हुई खाद को खेत में डालकर अच्छी तरह मिला दें। नाइट्रोजन की आधी मात्रा और फास्फोरस एवं पोटाष की पूरी मात्रा बोआई के समय प्रयोग करें। नाइट्रोजन की शेष आधी मात्रा बोआई के 50 से 60 दिनों बाद करें।

### **निकाई-गुड़ाई**

बोआई से खुदाई तक दो निकौनी करने की अनुषंसा किया गया है। पहली निकौनी 30 से 35 दिनों बाद करें। दूसरी निकौनी 60-65 दिनों बाद करें परन्तु पुष्प निकलने के पूर्व तथा उसी समय नाइट्रोजन की बची हुई आधी मात्रा का व्यवहार करें।

### **सिंचाई**

इस फसल को साधारणतः सिंचाई देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि वर्षा के द्वारा इसकी मॉग पूरी हो जाती है। परन्तु जिस वर्ष वर्षा न हो और सूखे की स्थिति उत्पन्न हो जाए वैसी स्थिति में एक या दो हल्की सिंचाई करना आवश्यक होता है। यदि कन्दों की खुदाई में देरी हो तो सिंचाई कर दें ताकि नम मिट्टी में कन्दों के फटने की सम्भावनाएँ कम होती हैं।

### **फूलों की तोड़ाई**

अच्छी कन्दोत्पादन के लिए यह आवश्यक है कि पौधों में पुष्प निकलते ही उसे तोड़ दें क्योंकि यदि पुष्पों को न तोड़ा गया तो उनमें फलियाँ लगेंगी और फलियों में दाने बनेंगे जिसके कारण कन्दो का आकार छोटा हो जाता है तथा वांछित उपज प्राप्त नहीं होगी।

### **फसल चक**

**खरीफ मक्का – मिश्रीकन्द – मूँग**

**खरीफ मक्का – मिश्रीकंद – प्याज**

**मिश्रित खेती :** अरहर एवं मक्का के दो कतारों के बीच मिश्रीकंद की एक कतार की खेती करना आर्थिक दृष्टिकोण से लाभप्रद पाया गया है, परन्तु कन्दोत्पादन हेतु मिश्रीकंद की अन्तर्वर्ती खेती न करें।

**मिश्रीकंद के प्रमुख कीट एवं रोग**

**मिश्रीकन्द का फली छिद्रक (मरुका विटरेटा)**— वैसे तो मिश्रीकंद पर कीट का प्रकोप कम होता है परन्तु जब इसकी खेती बीजोत्पादन हेतु किया जाता है तो मिश्रीकंद की फसल फली छिद्रक कीट से ज्यादा आकान्त होता है। इस कीट का प्रकोप सर्वप्रथम बिहार में मिश्रीकंद पर पाया गया है।

**पहचान—** वयस्क कीट छोटा हल्का भूरा रंग का होता है जिससे अगले पंख पर सफेद रेखाएँ होती हैं तथा पिछले पंख सफेद होते हैं। षिषु कीट (पिल्लू) हल्का हरापन लिए हुए 20 मि०मी० लम्बा होता है जिसका सिर भूरे रंग का होता है।

मादा कीट 30 से 80 अण्डे पुष्प कली के आसपास एक—एक कर देती है। तीन दिनों के अन्दर अण्डे से पिल्लू निकलते हैं जो रेषमनुमा धागा से कई पुष्प कली को एक साथ बॉध कर खाते हैं। 12 से 15 दिनों बाद ये प्यूपा में परिवर्तित हो जाते हैं तथा 8 से 9 दिनों के अन्दर वयस्क कीट निकलते हैं।

**आकमाण काल—** मध्य अक्टूबर से दिसम्बर तक।

**आकमण के लक्षण—** इस कीट के पिल्लू ही पौधों के हानि पहुँचाते हैं। आरम्भिक अवस्था में ये कली तथा पुष्प को खाकर हानि पहुँचाते हैं। जब फलियों में दाने बनने लगते हैं उस समय पिल्लू फलियों में छिद्र कर अन्दर प्रवेष कर जाते हैं तथा कोमल दानों को खा जाते हैं जिससे पैदावार में 30 से 35 प्रतिष्ठत तक कमी आती है।

**रोकथाम—** आकान्त पौधों पर डाइमिथोएट (30 ई०सी०) दवा का 1 मि०ली० या डेल्टामेथ्रिन (2.8 ई०सी०) दवा का 0.5 मि०ली० प्रति लीटर पानी में घोल कर दो छिड़काव करें। प्रथम छिड़काव 50 प्रतिष्ठत पुष्प निकल आने के बाद तथा दूसरा छिड़काव 50 प्रतिष्ठत फलियाँ बनने के बाद करें।

**मिश्रीकंद का मोजैक—** यह मिश्रीकंद का विषाणु जनित रोग है। इस रोग का आकमण अगस्त माह या उसके बाद बोआई की गयी फसल पर अधिक होता है। आकान्त पौधों की पत्तियाँ सिकूड़ कर छोटी तथा मोटी हो जाती हैं। पत्तियों की घिराएँ दिखलाई पड़ती हैं तथा पौधों की वृद्धि रुक जाती है। आकान्त पौधों में कन्दों की वृद्धि तथा फलियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अगात बोआई की गई फसल में इस बीमारी का प्रकोप कम होता है।

**निदान**

- ❖ आकान्त पौधों को खेत से निकाल कर जला दें।
- ❖ इस बीमारी के संवाहक कीट के रोकथाम हेतु डाईमिथोएट (30 प्रतिष्ठत तरल) दवा का 1.0 मि०ली० प्रति लीटर पानी में घोलकर पौधों पर 15 दिनों के अन्तराल पर दो छिड़काव करना श्रेयस्कर पाया गया है।

**खुदाई, विपणन एवं भण्डारण**

**अगस्त—सितम्बर में** लगाई गयी कन्दोत्पादन वाली फसल दिसम्बर—जनवरी माह में खुदाई कि लिए तैयार हो जाती है। खुदाई सावधानीपूर्वक कुदाल से करें ताकि कन्द कटे नहीं। खुदाई के बाद कटे—फटे एवं स्वरथ कन्दों को अलग कर लें। स्वरथ कन्दों को बाजार में बिक्की करें। ध्यान रहे बाजार में कन्दों की अच्छी मुल्य सरस्वती पुजा के अवसर पर ज्यादा प्राप्त होता है। वैसे कन्दों को दो सप्ताह तक बिना किसी नुकसान के भण्डारित किया जा सकता है। बीजोत्पादन वाली फसल की छेमियों की तुड़ाई पुर्णतः परिपक्व (फरवरी—मार्च) होने के बाद ही करना श्रेयकर होता है।

## PACKAGE OF PRACTICES FOR ARVI/TARO

<b>Sustainability</b>	: Fitted well in high moisture stress
<b>Recommended for</b>	: State of Bihar
<b>Sowing Season</b>	: <p><b>February planting</b> – As Summer Crop In most of the areas of Bihar, where irrigation is available, February Planting is ideal to fetch good market during scarcity of vegetables during rainy season (July-August).</p> <p><b>June planting</b>- As Kharif Crop</p>
<b>Duration</b>	: 170-180 days
<b>Land Preparation</b>	: Sandy-Loam soil, Deep ploughing followed by leveling and application of 12-15 t FYM/ha.
<b>Seed rate</b>	: 10-12 q/ha.
<b>Spacing</b>	: 50 x 30cm
<b>Fertilizer recommendation</b>	: <p>Application of 80 kg/ha of Nitrogen and Potash and 60kg/ha Phosphorus is recommended for Bihar. (Add full dose of phosphorus and half dose of nitrogen and potash as basal dose at the time of land preparation)</p>
<b>Irrigation and inter-culturing</b>	: <p>Need based. In general, 5-6 irrigations for summer crop are required for higher yields in Bihar. Inter-culturing at 45-50 days after planting along with removal of weeds and earthing up. Application of second dose of nitrogen and potash is recommended after weeding but before earthing up.</p>
<b>Plant Protection</b>	: <p>Application of Dithane M-45 (2-3 spray at 15 days interval) at the rate of 0.25 %, reduce the intensity of prevalent disease <i>Phytophthora</i> leaf blight. Ridomil @ 0.05% was also found effective in controlling the disease <i>Phytophthora</i> leaf blight.</p>
<b>Harvesting</b>	: July – August. (Vegetable purpose)
<b>Crop rotation and cropping sequences</b>	: <p>In Bihar intercropping of two rows of onion in between two rows of <i>Colocasia</i> (Arvi). Cropping sequence: Arvi– Maize/Urd- Sweet potato/Pea is recommended for North Bihar.</p>

## अरबी के उत्पादन की उन्नत तकनीक

### **भूमि का चुनाव तथा खेत की तैयारी**

अरबी की सर्वोत्तम विकास तथा अच्छी उपज हेतु जल निकास की अच्छी व्यवस्था, प्रचुर जीवांश पदार्थ युक्त उपजाऊ तथा हल्की बलुई दोमट मिट्टी सबसे अधिक उपयुक्त है। खेत की प्रथम जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से और दो जुताई देषी हल से करें। प्रत्येक जुताई के बाद पट्टा चला दें जिससे खेत समतल हो जाए तथा नमी बरकरार रहे।

### **रोपाई का समय, दूरी एवं बीज दर**

बिहार में अरबी की रोपाई दो मौसमों में की जाती है।

**ग्रीष्म कालीन रोपाई—** ग्रीष्म कालीन मौसम में अरबी की रोपाई फरवरी माह में की जाती है। इस मौसम में रोपाई ऐसे क्षेत्रों में करने की अनुषंसा की गई है जहाँ सिंचाई का उत्तम प्रबंध हो।

**वर्षा कालीन रोपाई—** खरीफ मौसम में अरबी की रोपाई जून माह में की जाती है तथा इस मौसम में लगाये गये फसल के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती है क्योंकि पानी की पूर्ति वर्षा से स्वयं हो जाती है।

अरबी की रोपाई प्रायः कन्दों से की जाती है। रोपाई के लिए 20 से 25 ग्राम के कन्द सबसे उपयुक्त पाया गया है जिसे पंक्ति तथा पौधों से पौधों के बीच  $50 \times 30$  सेन्टीमीटर की दूरी पर रोपाई करने की अनुषंसा की गई है। रोपाई से पूर्व खेत में 5–6 सेन्टीमीटर गढ़ायुक्त नालियाँ निष्ठित दूरी पर बना कर रोपाई करें। एक हेक्टर खेत की रोपाई हेतु 10 से 12 किंवदं कंदों की आवश्यकता पड़ती है।

### **रोपाई हेतु पौधा सामग्री**

अरबी का प्रवर्धन वानस्पति विधि द्वारा इसके मातृ या वाह्य कन्दों से होता है। वाह्य कन्द से रोपाई करने में वाह्य कन्दों की संख्या अधिक होती है तथा मातृ कन्दों की उपज कम होती है। मातृ कन्दों को बीज के रूप में इस्तेमाल करने पर किसानों पर आर्थिक भार ज्यादा नहीं पड़ता है साथ ही इन कन्दों का कोई विषेष उपयोग नहीं हो पाता है न हीं बाजार भाव हीं प्राप्त हो पाता है और न खाने के काम आता है।

### **खाद एवं उर्वरक की मात्रा**

अरबी की अच्छी उपज हेतु कम्पोस्ट या गोबर की सड़ी खाद 15 टन/हेक्टर के अलावे नेत्रजन, फास्फोरस तथा पोटाष की 80:60:80 किलो ग्राम/हेक्टर की दर व्यवहार करने की अनुषंसा की गयी है। कम्पोस्ट या गोबर की सड़ी खाद को जुताई के समय खेत में डालकर अच्छी तरह मिला दें। रोपाई के पूर्व अन्तिम जुताई के समय फास्फोरस की सम्पूर्ण मात्रा, नेत्रजन एवं पोटाष दो बराबर भागों में बॉटकर पहला मात्रा को खेत में मिला कर रोपाई करें। दूसरा भाग 60 दिन बुआई के बाद उपरिवेष्टन (टॉपड्रेसिंग) मिट्टी चढ़ाते वक्त इस्तेमाल करें।

### **रोपाई की विधि**

प्रायः अरबी की खेती समतल क्यारी विधि से की जाती है। इस विधि के अन्तर्गत 8 से 10 सेंटीमीटर गहरी नाली 50 सेंटीमीटर की दूरी पर बनाई जाती है जिसमें 30 सेंटीमीटर की दूरी पर अरबी के कन्दों की रोपाई की जाती है। यह विधि बलुई दोमट भूमि के लिए सर्वोत्तम पाया गया है। जैसे-जैसे पौधे की वृद्धि होती है मेड वाली मिट्टी को नालियों में डालते जाए तथा बाद में अरबी की फसल पर मिट्टी चढ़ा दें।

### **सिंचाई**

अरबी की फसल का सही विकास खेत में उपलब्ध नमी पर निर्भर करता है। अतः सही वानस्पति विकास हेतु खेत में लगातार नमी बरकरार रहनी चाहिए। वैसे तो जून माह में रोपाई की गयी फसल को सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती है क्योंकि पानी की उपलब्धता की पूर्ति वर्षा से हो जाती है। परन्तु यदि वर्षा कम हुई तथा खेतों में नमी की कमी हो तो एक दो सिंचाई अवश्य करें। परन्तु फरवरी माह में की गयी फसल में 5–6 सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है।

### **निकाई-गुड़ाई**

अच्छी पैदावार हेतु अरबी की फसल को खर-पतवारों से मुक्त रखें। प्रथम निकौनी 45 से 50 दिनों बाद करें। निकौनी करने के पश्चात् पौधों पर मिट्टी चढ़ा दें जिससे पौधों की अच्छी बढ़वार के साथ हीं साथ उपज में भी वृद्धि होती है।

## फसल चक

**जून रोपाई**  
 भिन्डी—अरबी—आतू  
 प्याज—अरबी—फूलगोभी  
 भिन्डी—अरबी—षकरकंद

**फरवरी रोपाई**  
 अरबी—मक्का—मटर  
 अरबी—मक्का—षकरकंद  
 अरबी—मक्का—मिश्रीकंद

## अन्तर्वर्ती खेती

सिंचित अवस्था में अरबी की दो कतारों के बीच प्याज के दो कतारों की अन्तर्वर्ती खेती की जाए तो अतिरिक्त मुनाफा प्राप्त होता है। इसके अलावे अरबी की अन्तर्वर्ती खेती लीची तथा आम के नये लगाये गये बगीचे में भी सफलतापूर्वक किया जा सकता है जिससे पेड़ों के कतारों के बीच पड़ी भूमि का सही ढग से इस्तेमाल हो जाता है। साथ हीं साथ बागों की निकाई—गुड़ाई होते रहने के कारण फलों की अच्छी उपज प्राप्त होती हैं।

## अरबी के प्रमुख कीट एवं रोग

**तम्बाकु की इल्ली कीट (स्पोडोटेरा ल्यूटरा)**— यह अरबी वर्गीय सब्जियों का प्रमुख कीट है, जिसका प्रकोप प्रतिवर्ष बिहार में होता है। यह एक बहुभक्षी कीट है तथा कंदीय फसलों तथा सब्जियों को भी क्षति पहुँचाता है।

**अरबी के लाही कीट (ऐन्टोलोनिया नाइग्रोनर्वोसा)**—लाही कीट छोटा लगभग 2 से 3 मि0मी0 लम्बा हरे पीले या काले रंग का होता है। वयस्क की कीट पंखदार एवं पंखविहीन दोनों प्रकार का होता है परन्तु षिषु कीट पंखहीन होता है।

**रोकथाम—** यदि पौधों पर लाही कीट या इल्ली कीट का प्रकोप अधिक हो तो किसी एक तरल कीटनाषी दवा जैसे डाइमिथोएट (30ई0सी0) दवा का 1.0 मि0ली0 को प्रति लीटर पानी में घोल कर पौधों पर छिड़काव करें। यदि आवश्यकता हो तो 15 दिनों के अन्तराल पर पुनः दूसरा छिड़काव करें।

**झुलसा रोग** — अरबी पर लगने वाले रोगों में अरबी के पत्तों का झुलसा रोग प्रमुख है जिसके कारण अरबी की फसल प्रतिवर्ष बर्बाद हो जाती है तथा पैदावार में 25 से 50 प्रतिष्ठत तक कमी ऑकि गई है। यह अरबी का एक विनाषकारी रोग है जो पत्तियों पर छोटे-छोटे मटमैले सफेद भूरे रंग के धब्बों के रूप में बनने से शुरू होता है। शीघ्र ही ये छोटे-छोटे धब्बे गहरे भूरे रंग के आकार में बड़े होकर अगल-बगल के स्वस्थ पौधों को भी प्रभावित कर देते हैं। यदि समय पर रोकथाम नहीं किया जाये तो एक सप्ताह के अन्दर पूरी फसल झूलस कर बर्बाद हो जाती है।

**रोकथाम—** ताम्रयुक्त कवकनाषी दवाएँ जैसे, डाईथेन एम-45 (0.2 प्रतिष्ठत) का 2-3 छिड़काव 15 दिनों के अन्तराल पर करने पर इस रोग का काफी हद तक रोकथाम हो जाता है। अनुसंधान के परिणाम से ज्ञात हुआ है कि मेटालैकिसल का छिड़काव (0.05 प्रतिष्ठत) करने पर पैदावार में 50 प्रतिष्ठत तक वृद्धि होती है तथा रोग की तीव्रता में भी कमी पायी गई है।

## कन्दों की खुदाई, विपणन एवं भण्डारण

अरबी की फसल 5 से 6 माह के बाद खुदाई हेतु तैयार हो जाती है। वैसे तो 160 से 170 दिनों बाद कन्दों की खुदाई कर बाजार में भेजा जा सकता है। बीज एवं भण्डारण हेतु अरबी की खुदाई नवम्बर—दिसम्बर में कुदाल से किया जाता है। खुदाई बाद कन्दों की सफाई कर दो-तीन दिनों तक छाया में पक्का फर्ष पर सुखाकर हवादार भण्डारण गृह में भण्डारित करें।